

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)

कार्यालय कार्यपालक निदेशक (योजना वाणिज्य एवं नियामक मामले)

पता : तृतीय तल, भार प्रेषण भवन, डंगनिया, रायपुर छ.ग.-492013

वेबसाइट—www.cspc.co.in, ईमेल—cecnra.csptcl@cspc.co.in, टेलीफोन नं.—2574831, फैक्स नं.—2574698

क्र. 02-12 / PC&RA / RTI / ४०

रायपुर, दिनांक - 5 APR 2023

प्रति,

जनसूचना अधिकारी,
सह उप—महाप्रबंधक (मा.स.)— दो
कार्या. मुख्य अभियंता (मा.स.)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत 17 बिंदुओं की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने बाबत।

- संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्र. 01-01 / सू.अधि./ 170, दिनांक 10.01.2023 |
2. आपका पत्र क्र. 01-01 / ज.सू.अधि./ 2023 / 1569, दिनांक 22.03.2023 |
3. इस कार्यालय का पत्र क्र. 02-12 / PC&RA/RTI/1144 दिनांक 12.01.2023 |

—000—

संदर्भित पत्र क्रमांक 3 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 की उपधारा 1(ख) में उल्लेखित 17 बिंदुओं की जानकारी निर्धारित प्रारूप में सॉफ्ट कॉपी सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित किया गया था।

पुनः इस पत्र के माध्यम से उक्त चाही गई जानकारी निर्धारित प्रारूप में सॉफ्ट कॉपी सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित किया जा रहा है।

उपरोक्त जानकारी RTI-17 Points 2022 ED (PC&RA) फॉल्डर के नाम से, Urjainet के DGM-HR (Trans) के Temporary Document में आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध है।

संलग्न:- निर्धारित प्रपत्र की छायाप्रति।

CE (HR)	O/o C.E. (HR)
ACE (HR)	C.S.P.T.C.L. रायपुर
DGM (HR) I/II/III	R.D. No. 2A.2.1
M (C&A)	Date. 6.4.2023
M (P&S)	
IR/Legal	

CE (HR)	O/o C.E. (HR)
ACE (HR)	C.S.P.T.C.L. रायपुर
DGM (HR) I/II/III	R.D. No. 2A.2.1
M (C&A)	Date. 6.4.2023
M (P&S)	
IR/Legal	

Jitendra Prasad
JK

कार्यपालक निदेशक (यो.वा. एवं निया.मा.)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Jitendra Prasad
JK 13/04

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का उपकाम)

कार्यालय मुख्य अभियंता (योजना वाणिज्य एवं नियामक मामले)

पता : दुर्गीय तल, भार प्रेषण भवन, डंगनिया, रायपुर छ.ग.-492013

वेबसाइट - www.espc.co.in, ईमेल - cecnra.csptcl@csplc.co.in, टेलीफोन नं. - 2574831, फैक्स नं. - 2574698

क्र. 02-12 / PC&RA / RTI / 1144

रायपुर, दिनांक 12 JAN 2023

प्रति,

जनसूचना अधिकारी,
सह उप-महाप्रबंधक (मा.स.)- दो
कार्या, मुख्य अभियंता (मा.स.)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत 17 बिंदुओं
की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने बाबत।

सदर्भ:- आपका पत्र क्र. 01-01 / सूअधि. / 170, दिनांक 10.01.2023।

—000—

विषयांतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 की उपधारा 1(ख) में
उल्लेखित 17 बिंदुओं की जानकारी निर्धारित प्रारूप में सॉफ्ट कॉपी सहित अग्रिम कार्यवाही
हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है।

उपरोक्त जानकारी RTI-17 Points 2022 ED (PC&RA) फोल्डर के नाम से,
Urjainet के DGM-HR (Trans) के Temporary Document में आवश्यक कार्यवाही हेतु
उपलब्ध है।

संलग्न:- निर्धारित प्रपत्र की छायाप्रति।


कार्यपालक निदेशक (यो.वा. एवं निया.मा.)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

01
12/01/23
12/01/23
12/01/23
12/01/23
12/01/23

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
रायपुर

मैनुअल

सूचना का अधिकार— अधिनियम—2005

01.01.2023

कार्यालय—कार्यपालक निदेशक (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले)
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
डंगनिया, रायपुर (छ0ग0)

1.(अ)
मेन्युअल अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	(अ) अनुक्रमणिका (ब) कार्यालय के कार्य एवं दायित्व	02 03
2	अधिकारियों के कर्तव्य (परिलक्षियों सहित)	04
3	कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया, पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व	05
4	कार्य निष्पादन के मापदण्ड, (समय, गुणवत्ता तथा मात्रा)	06
5	कार्यालय के कार्यों से संबंधित उपलब्ध अधिनियम, नियम, रेग्यूलेशन, मेन्युअल्स, निर्देश, परिपत्रों की सूची	07
6	कार्यालय में संधारित अभिलेखों की सूची	08—09
7	परामर्शदात्री समितियों की संरचना (अ) समितियों के नाम, उनकी संरचना, दायित्व एवं कर्तव्य, (ब) समितियों के बैठकों का कार्यवाही विवरण	10
8	मंडल, परिषद, समितियों एवं अन्य संस्थाओं की जानकारी	11
9	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की डायरेक्टरी	12
10	मासिक परिलक्षियां एवं सुविधाएं	13
11	बजट आबंटन एवं व्यय पत्रक	14
12	कार्यक्रम एवं हितग्राहियों की जानकारी	15
13	हितग्राहियों एवं उन्हें प्राप्त सुविधाओं की सूची	16
14	कार्यालय में उपलब्ध जानकारियों	17
15	जानकारियों को उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधाएं	18
16	लोक सूचना अधिकारी का विवरण	19
17	अन्य प्रासंगिक जानकारी	20

1.(ब)

कार्यालय की प्रत्येक इकाई / अनुभाग के कार्य एवं दायित्व

क्र०	इकाई /अनुभाग	कार्य का विवरण
1	वाणिज्य एवं नियामक मामले (Commercial & Regulatory Affairs)	<p>1. पारेषण लाईन एवं उच्च दाब विद्युत उपकेन्द्रों की भौतिक तथा वित्तीय कार्ययोजना तैयार करना।</p> <p>2. वाणिज्यिक एवं विद्युत नियामक मामले का कार्य।</p> <p>3. विद्युत दरों (ट्रांसमिशन टैरिफ) का निर्धारण से संबंधित कार्य।</p> <p>4. दीर्घावधि / मध्यावधि ओपन एक्सेस, ट्रांसमिशन चार्ज से संबंधित कार्य।</p> <p>5. कनेक्टिविटी से संबंधित सभी कार्य।</p> <p>6. केन्द्रीय एवं राज्य विद्युत नियामक आयोग तथा ए.पी.टी.ई.एल से संबंधित कार्यों का निष्पादन।</p> <p>7. मासिक ट्रांसमिशन चार्जस बिल, कनेक्टीविटी एवं सिंक्रोनाईजेशन से संबंधित कार्य।</p> <p>8. आर.टी.यू. हाईरिंग चार्जस एवं ट्रांसमिशन लॉस से संबंधित कार्य।</p> <p>9. डिपॉजिट कार्य के लिए प्राक्कलन तैयार करना एवं उसका अनुमोदन उपरान्त तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना।</p> <p>10. मैदानी अधिकारियों के निवेदन पर डिपॉजिट कार्य से संबंधित प्राक्कलन का पुनरीक्षण कर कम्प्लीशन रिपोर्ट की कार्यवाही एवं अतिरिक्त देयक की वापसी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना।</p> <p>11. बजट संबंधित समस्त कार्य।</p> <p>12. कार्यालय के संचालन हेतु आवश्यक रिवाल्विंग फंड प्राप्त कर उसे आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना तथा खर्चे के उपरांत लेखा प्रस्तुत कर आवश्यक फंड प्राप्त करना।</p> <p>13. पूंजी निवेश योजना (CEO) से संबंधित कार्य।</p> <p>14. 24X7 PFA में निहित कार्यों का प्रगति विवरण तैयार करना।</p> <p>15. कार्यालय के संचालन हेतु विभिन्न मर्दों में प्राप्त राशि का लेखा जोखा रखना तथा कैश पंजी बुक को अद्यतन रखना।</p> <p>16. कार्यालय के समस्त स्थापना संबंधी कार्यों का सम्पादन एवं तत्संबंधी पंजी एवं नस्ती संधारण करना।</p> <p>17. लोकसभा एवं राज्यसभा प्रश्न/विधानसभा प्रश्न/व्ही.आई.पी. प्रकरण का समयावधि में जवाब प्रस्तुत करना।</p> <p>18. ऑडिट एवं सूचना का अधिकार से संबंधित कार्य।</p> <p>19. SoR से संबंधित कार्य।</p>

2	योजना विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. विद्युत नियामक आयोग द्वारा कार्ययोजना के कार्यों एवं अन्य आवश्यक कार्यों का प्राक्कलन तैयार करना एवं उसका अनुमोदन करना। 2. मैदानी अधिकारियों के निवेदन पर प्राक्कलन के पुनरीक्षण कर कम्लीशन रिपोर्ट की कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना। 3. विद्युत पारेषण लाइनों के स्थापना, पी.टी.सी.सी. से संबंधित कार्य।
---	-------------	---


कार्यालय में पदस्थ प्रत्येक अधिकारी का कार्यविवरण

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्य विवरण
1	2	3	4
1	श्री राजेश कुमार शुक्ला	कार्यपालक निदेशक	विद्युत पारेषण कंपनी की योजना से संबंधित सभी कार्य तथा वाणिज्य एवं केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग से संबंधित कार्यों का निष्पादन एवं उच्चाधिकारियों से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
2	श्री डी० के० दवे	अति० मुख्य अभियंता	विद्युत पारेषण कंपनी से संबंधित वाणिज्य एवं विद्युत नियामक आयोग से संबंधित कार्यों का निष्पादन एवं उच्चाधिकारियों से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा लॉग टर्म ओपन एक्सेस से संबंधित सभी कार्य, टैरिफ से संबंधित सभी कार्य।
3	श्रीमति कल्पना घाटे	अति० मुख्य अभियंता	योजना से संबंधित सभी कार्य, पी.एफ.सी./आर.ई.सी. से लोन संबंधित सभी कार्य डब्लू.आर.पी.सी./सी.ई.ए. से संबंधित सभी कार्य एवं अन्य कार्य। भारत सरकार उर्जा विभाग/स्टेन्डिंग कमीटी/पीजीसीआईएल/डब्लूआरपीसी से संबंधित कार्य
4	श्री विजय गुलाब इक्का	अधीक्षण अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-I)	विद्युत पारेषण कंपनी से संबंधित वाणिज्य एवं विद्युत नियामक आयोग से संबंधित कार्यों का निष्पादन एवं उच्चाधिकारियों से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा लॉग टर्म ओपन एक्सेस से संबंधित सभी कार्य, टैरिफ से संबंधित सभी कार्य।
5	श्रीमती अरुणा दिव्या कुजूर	अधीक्षण अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-II)	मानव संसाधन से संबंधित सभी कार्य, कार्यालय बजट, पूँजीगत कार्यों के लिए बजट तैयार करना, सूचना के अधिकार से संबंधित कार्य, प्राक्कलन संबंधी कार्य, विधान सभा एवं लोक सभा कार्य। मटेरियल इन्सपेक्शन, डिस्पेच इन्स्ट्रक्शन झाइंग अप्रूवल, एसओआर, रिफन्ड से संबंधित कार्य।
6	श्री अजय कुमार चौकसे	कार्यपालन अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-I)	विद्युत पारेषण कंपनी से संबंधित वाणिज्य एवं विद्युत नियामक आयोग से संबंधित कार्यों का निष्पादन एवं उच्चाधिकारियों से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना, RTU Hiring से संबंधित कार्य एवं टैरिफ से संबंधित सभी कार्य।
7	श्री सी० के० एस० ठाकुर	कार्यपालन अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-II)	स्थापना एवं रोकड़ संबंधित कार्य का निष्पादन, प्राक्कलन संबंधी कार्य, सूचना के अधिकार संबंधित कार्य, डिपॉजिट कार्य के लिए मैदानी अधिकारियों के निवेदन पर डिपॉजिट रकीम के अंतर्गत प्राक्कलन से संबंधित सभी कार्य तथा बजट संबंधित समस्त कार्य, SoR से संबंधित कार्य। मटेरियल इन्सपेक्शन, डिस्पेच इन्स्ट्रक्शन झाइंग अप्रूवल, रिफन्ड, लोड पलो, ऑडिट से संबंधित कार्य।
8	श्रीमति नेहा वैश्य	कार्यपालन अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-III)	लॉग टर्म ओपन एक्सेस से संबंधित सभी कार्य, कनेक्टीविटी, ट्रांसमिशन लॉस, सिन्कोनाइजेशन, नियामिकिय मामले से संबंधित सभी कार्य।

9	श्री मनोज वर्मा	कार्यपालन अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-IV)	योजना से संबंधित सभी कार्य, पूँजीगत कार्यों का प्राक्कलन, सिस्टम स्टडी, पी.एफ.सी./आर.ई.सी. से लोन संबंधित सभी कार्य डब्लूआर.पी.सी./सी.ई.ए. से संबंधित सभी कार्य एवं अन्य कार्य। भारत सरकार उर्जा विभाग/स्टेन्डिंग कमीटी/पीजीसीआईएल/डब्लूआरपीसी से संबंधित कार्य।
10	श्री ललित कुमार देवांगन	कार्यपालन अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-V)	सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट से संबंधित प्राक्कलन, बजट वितरण, पी. टी.सी.सी, विधानसभा एवं लोकसभा ऑडिट से संबंधित कार्य।
11	श्रीमती नलिनी द्विवेदी	सहायक अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-I)	वाणिज्य एवं विद्युत नियामक आयोग, RTU Hiring ट्रांसमिशन चार्जेस की बिलिंग, लॉग टर्म ओपन एक्सेस से संबंधित कार्य।
12	श्रीमती अलका यादव	सहायक अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-II)	डिपॉजिट कार्य के लिए प्राक्कलन, मटेरियल इन्सपेक्शन, डिस्पेच इन्स्ट्रक्शन, बिलिंग के लिए पीओ, एस्टीमेट सेंक्षण के लिए इन्टर्नल ऑडर, जमा अन्तर्गत कार्यों के लिए बजट आवंटन से संबंधित कार्य।
13	श्रीमती स्मिता तिवारी	सहायक अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-III)	लाईन के डायवर्जन/हाईट रेजिंग का प्राक्कलन, एनएचएआई एवं ईरकॉन के कार्य एवं प्रगति रिपोर्ट, SoR, उपभोक्ताओं के तकनीकि साध्यता, रिफंड, आरटीआई, सुपरविजन के अंतर्गत लाईनों के ड्राईंग, पेमेन्ट एवं डाक्यूमेन्ट समिशन के लिए नोटिस से संबंधित कार्य।
14	श्री राम नारायण पटेल	सहायक अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-IV)	पूँजीगत कार्यों का प्राक्कलन, ग्रान्ट, DPR/PFC/REC & Monthly Return से संबंधित कार्य।

3 कार्यालय की निर्णय प्रक्रिया

1




2

IPP/ CPP/ CSPDCL/ CSPTrdCL/ CSPGCL/ PGCHL/ NTPC/ Other Utilities/ Internal Financial/ Administrative & Works related to Technical Feasibility and Commercial Matters/ All Planning work/ System studies of CSPCL, ETC.

कार्य के प्रकार → प्रकार की प्राप्ति → प्रकार का बंटवारा/वितरण → प्रकार का प्रारंभिक परीक्षण → प्रकार का प्रारंभिक परीक्षण की प्रत्युति → प्रकार का प्रारंभिक परीक्षण का परीक्षण → प्रकार का पूर्ण परीक्षण → प्रकार का अनुमोदन

कार्य के प्रकार → प्रकार की प्राप्ति → प्रकार का बंटवारा/वितरण → प्रकार का प्रारंभिक परीक्षण → प्रकार का प्रारंभिक परीक्षण की प्रत्युति → प्रकार का प्रारंभिक परीक्षण का परीक्षण → प्रकार का पूर्ण परीक्षण → प्रकार का अनुमोदन



**कार्यों के निष्पादन के मापदंड
(समय, गुणवत्ता एवं मात्रा)**

गतिविधि	समय का मापदण्ड	गुणवत्ता का मापदंड	मात्रा (एक वर्ष में किए जाने वाले कार्यालयीन कार्य)
योजना वाणिज्य एवं नियामक विभाग (Planning Commercial & Regulatory Section) <ol style="list-style-type: none"> पारेषण लाईन एवं उच्च दाब विद्युत उपकेन्द्रों की भौतिक तथा वित्तीय कार्ययोजना तैयार करना। वाणिज्यिक एवं विद्युत नियामक मामले का कार्य। विद्युत दरों (ट्रांसमिशन टैरिफ) का निर्धारण से संबंधित कार्य। दीर्घावधि / मध्यावधि ओपन एक्सेस, ट्रांसमिशन चार्ज से संबंधित कार्य। कनेक्टिविटी से संबंधित सभी कार्य। केन्द्रीय एवं राज्य विद्युत नियामक आयोग तथा ए.पी.टी.ई. एल से संबंधित कार्यों का निष्पादन। मासिक ट्रांसमिशन चार्जेस बिल, कनेक्टीविटी एवं सिंक्रोनाइजेशन से संबंधित कार्य। आरटी.यू. हाईरिंग चार्जेस एवं ट्रांसमिशन लॉस से संबंधित कार्य। डिपॉजिट कार्य के लिए प्राक्कलन तैयार करना एवं उसका अनुमोदन उपरान्त तकनीकी रूपीकृति प्रदान करना। मैटानी अधिकारियों के निवेदन पर डिपॉजिट कार्य से संबंधित प्राक्कलन का पुनरीक्षण कर कम्लीशन रिपोर्ट की कार्यवाही एवं अतिरिक्त देयक की वापसी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना। बजट संबंधित समस्त कार्य। कार्यालय के संचालन हेतु आवश्यक रिवाल्विंग फंड प्राप्त कर उसे आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना तथा खर्चों के उपरांत लेखा प्रस्तुत कर आवश्यक फंड प्राप्त करना। पूँजी निवेश योजना से संबंधित कार्य। 24X7 PFA में निहित कार्यों का प्रगति विवरण तैयार करना। कार्यालय के संचालन हेतु विभिन्न मदों में प्राप्त राशि का लेखा जोखा रखना तथा कैश पंजी बुक को अद्यतन रखना। कार्यालय के समस्त स्थापना संबंधी कार्यों का सम्पादन एवं तत्संबंधी पंजी एवं गस्ती राधारण करना। लोकसभा एवं राज्यसभा प्रश्न/विधानसभा प्रश्न/क्षी.आई. पी. प्रकरण का समयावधि में जवाब प्रस्तुत करना। ऑडिट एवं सूचना का अधिकार से संबंधित कार्य। SoR से संबंधित कार्य। 	आवश्यकतानुसार निर्धारित प्रारूप में प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार समयबद्ध कार्य करना।	विद्युत नियामक आयोगों द्वारा निर्धारित मापदण्ड जो कि केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय ग्रिड कोड के अनुसार।	कार्यपालक निदेशक (यो.वा.० एवं निया.० मा.०) में समस्त कार्यों के प्रकरण यथासंभव समय सीमा में निष्पादित किए जाते हैं। कार्यालय के अंतर्गत आने वाले कार्य जैसे योजना से संबंधित उप-केन्द्रों से संबंधित, विद्युत नियामक से संबंधित एवं जमा योजना के अंतर्गत निजी उपभोक्ताओं के उत्पादन संयोजकता से संबंधित कार्य सम्मिलित हैं। तथापि कार्य की गंभीरता को देखते हुए उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों को अलग से प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा पर निष्पादित किया जाता है।

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 20. विद्युत नियामक आयोग द्वारा कार्ययोजना के कार्यों एवं अन्य आवश्यक कार्यों का प्राक्कलन तैयार करना एवं उसका अनुमोदन करना। | | | |
| 21. मैदानी अधिकारियों के निवेदन पर प्राक्कलन के पुनरीक्षण कर कम्प्लीशन रिपोर्ट की कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना। | | | |
| 22. विद्युत पारेषण लाइनों के स्थापना, पी.टी.सी.सी. से संबंधित कार्य। | | | |

कार्यालय के कार्यों से संबंधित उपलब्ध अधिनियम ,नियम ,रेगुलेशन,
मैनुअल्स, परिपत्रों की सूची

कानून :-

1. कंपनीज एकट 1956 , भारतीय विद्युत अधिनियम 2003, छ0रा0 विद्युत मण्डल अंतरण योजना नियम 2010, केन्द्र एवं राज्य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा निर्धारित कोड विनियास, छ0ग0 राज्य विद्युत पावर कंपनी एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम एवं आदेश इत्यादि।

नियम :-

1. विद्युत अधिनियम—2003, टैरिफ पीटीशन तथा वाणिज्यिक मामले जो कि विभिन्न विद्युत आयोगों द्वारा अनुमोदित होते हैं।
2. विद्युत ग्रिड कोडों तथा संशोधित कोड जो कि छ0ग0राज्य विद्युत नियामक आयोग तथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं।
3. (i) छ0ग0रा0 विद्युत सिविल सर्विसेज फंडामेंटल रूल।
(ii) छ0ग0रा0विद्युत प्रदाय अधिनियम 1956, छ0रा0 विद्युत मण्डल अंतरण योजना नियम, 2010

मैनुअल :-

1. समस्त वैद्युतिकीय मानक जैसे कि IS, IEC, CBIP, छ0ग0राज्य विद्युत नियामक आयोग तथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित ग्रिड कोड, टैरिफ पीटीशन इत्यादि।
2. मैनुअल आन सर्विस मेटर (छ0ग0राज्य विद्युत कंपनीज)
3. डेलीगेशन ऑफ पॉवर

प्रपत्र :-

1. राज्य शासन / छ0ग0 राज्य विद्युत मण्डल / छ0ग0 स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेश।
2. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग / राज्य विद्युत नियामक आयोग एवं अन्य वैधानिक विद्युत विभाग नियामकों द्वारा प्रसारित आदेश।

कार्यालय में संधारित विभिन्न श्रेणी के अभिलेखों की सूची

क्र०	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार (माइक्रोफिल्म, रजिस्टर, किताब, डिस्क आदि)	अभिलेख की प्रकृति एवं विषयवस्तु	अभिलेख की अवधि
1	2	3	4	5
(1) स्थापना एवं रोकड़ संबंधी लेख				
1	कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका (अधिकारी वर्ग को छोड़कर)	पुस्तिका	कर्मचारी संबंधी समस्त जानकारी	कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक से सेवाकाल तक
2	अवकाश अभिलेख / उपस्थिति	पुस्तिका	कर्मचारी संबंधी समस्त जानकारी	1 वर्ष
3	यात्रा भत्ता / अग्रिम	रजिस्टर	कर्मचारी संबंधी समस्त जानकारी	1 वर्ष
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	रजिस्टर	कर्मचारी संबंधी समस्त जानकारी	1 वर्ष
5	वर्दी का आवंटन	रजिस्टर	कर्मचारी संबंधी समस्त जानकारी	1 वर्ष
6	न्यायालयीन प्रकरण	प्रकरण फाईल	याचिका संबंधी समस्त जानकारी	निपटारा होने तक
7	कैश बुक	रजिस्टर	कैश आवक जावक विवरण	वित्तीय वर्ष
8	बिल रजिस्टर	रजिस्टर	बिलों का विवरण	वित्तीय वर्ष
9	संपत्ति रजिस्टर	रजिस्टर	संपत्ति का विवरण	कार्यालय की पूर्ण अवधि
10	विभिन्न कार्यालयीन अभिलेख	रजिस्टर	कार्यालय से संबंधित विभिन्न अभिलेखों के विवरण	कार्यालय की पूर्ण अवधि
11	आवक जावक पंजी	रजिस्टर	कार्यालय से भेजे जाने वाले प्राप्त पत्रों का विवरण	वित्तीय वर्ष
12	सूचना का अधिकार	रजिस्टर	सूचना के अधिकार अंतर्गत प्राप्त एवं देय का विवरण	वित्तीय वर्ष
13	जी.पी.एफ. अग्रिम	रजिस्टर	जी.पी.एफ. ऋण एवं अग्रिम संबंधित विवरण	1 वर्ष
14	वार्षिक वेतन वृद्धि	रजिस्टर	कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि का विवरण	1 वर्ष

15	अखिल भारतीय यात्रा सुविधा / नगदीकरण	रजिस्टर	भारत भ्रमण के लिये दिये जाने वाले सुविधा / नगदीकरण का विवरण	4 वर्ष
16	उच्च शिक्षा अनुमति	रजिस्टर	अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा उच्च शिक्षा के लिए ली गई अनुमति	कार्यकाल की पूर्ण अवधि
(2) बजट संबंधी अभिलेख				
1	एस्टीमेंट फाईल	फाईल	स्वीकृत एस्टीमेट का विवरण	पांच वर्ष तक
2	बजट फाईल (स्थापना)	फाईल	प्रस्ताव	पांच वर्ष तक
3	वार्षिक ट्रांसमिशन लाईसेन्स फीस	फाईल	नियामक आयोग दस्तावेज	वार्षिक
4	कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान	मैनुअल	कंपनी की कार्ययोजना।	पांच वर्ष तक
5	टैरिफ पिटिशन	पुस्तिका	कंपनी का टैरिफ निर्धारण	वार्षिक
(3) अन्य अभिलेख				
1	आर.टी.यू.	रजिस्टर	आर.टी.यू. का कार्य एवं प्राप्त राशि का विवरण	कार्य पूर्ण होने की अवधि तक
2	प्राक्कलन	रजिस्टर	प्राक्कलन कार्य एवं राशि का विवरण	वार्षिक
3	SoR	पुस्तिका	प्राक्कलन का मूल्य निर्धारण	वार्षिक
(4) कार्य प्रगति अभिलेख				
1	मासिक प्रगति रिपोर्ट	फाईल	विवरण	तीन वर्ष
2	वार्षिक प्रगति रिपोर्ट	रजिस्टर	कार्यों का प्राक्कलन, राशि एवं कार्यपूर्णता का विवरण	पांच वर्ष तक
(5) योजना संबंधी अभिलेख				
1	प्रस्तावित कार्य	रजिस्टर	प्रस्तावित कार्य एवं राशि का विवरण	प्रति वर्ष
2	मुख्यमंत्री घोषणा / डी.आई.पी. संबंधित कार्य	रजिस्टर	कार्यवाही का विवरण	कार्यपूर्ण होने की अवधि तक

7.

परामर्शदात्री समितियों की संरचना
(जिनके सदस्य जन प्रतिनिधि हैं)

(अ) समितियों के नाम, उनका गठन, दायित्व एवं कर्तव्य

निरंक

(ब) समितियों की बैठकों का कार्यवाही विवरण

निरंक

कार्यालय के अंतर्गत आने वाले मंडल, परिषदों, समितियों
एवं अन्य संस्थाओं की जानकारी

सरल क्रमांक 1	संस्था का नाम 2	सदस्यों के नाम 3	अर्हता 4

← →
निरंक

9
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निदेशिका

क्र.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	पता	कार्यालयीन दूरभाष क्रमांक
1	श्री राजेश कुमार शुक्ला	कार्यपालक निदेशक	कार्यालय –कार्यपालक निदेशक (यो०.वा०–नि०मा०) छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.क.लिमि., डंगनिया रायपुर	0771–2574831 98271–91983
2	श्री डी० के० दवे	अति० मुख्य अभियंता	कार्यालय –कार्यपालक निदेशक (यो०.वा०–नि०मा०) छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.क.लिमि., डंगनिया रायपुर	0771–2574832 98271–82986
3	श्रीमति कल्पना घाटे	अति० मुख्य अभियंता	कार्यालय –कार्यपालक निदेशक (यो०.वा०–नि०मा०) छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.क.लिमि., डंगनिया रायपुर	0771–2574231 98265–75311
4	श्री विजय गुलाब इक्का	अधीक्षण अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले–I)	कार्यालय –कार्यपालक निदेशक (यो०.वा०–नि०मा०) छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.क.लिमि., डंगनिया रायपुर	0771–2574694 94077–03686
5	श्रीमती अरुणा दिव्या कुजूर	अधीक्षण अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले–II)	कार्यालय –कार्यपालक निदेशक (यो०.वा०–नि०मा०) छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.क.लिमि., डंगनिया रायपुर	0771–2574696 99262–04921
6	श्री अजय कुमार चौकसे	कार्यपालन अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले– I)	कार्यालय –कार्यपालक निदेशक (यो०.वा०–नि०मा०) छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.क.लिमि., डंगनिया रायपुर	0771–2574694 99810–05885
7	श्री सी० के० एस० ठाकुर	कार्यपालन अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले–II)	कार्यालय –कार्यपालक निदेशक (यो०.वा०–नि०मा०) छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.क.लिमि., डंगनिया रायपुर	0771–2574833 90093–29525
8	श्रीमति नेहा वैश्य	कार्यपालन अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले–III)	कार्यालय –कार्यपालक निदेशक (यो०.वा०–नि०मा०) छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.क.लिमि., डंगनिया रायपुर	0771–2574233 97542–18350
9	श्री मनोज वर्मा	कार्यपालन अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले–IV)	कार्यालय –कार्यपालक निदेशक (यो०.वा०–नि०मा०) छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.क.लिमि., डंगनिया रायपुर	0771–2574234 94242–98275
10	श्री ललित कुमार देवांगन	कार्यपालन अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले–V)	कार्यालय –कार्यपालक निदेशक (यो०.वा०–नि०मा०) छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.क.लिमि., डंगनिया रायपुर	0771–2574201 98267–73634

11	श्रीमती नलिनी द्विवेदी	सहायक अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-I)	कार्यालय –कार्यपालक निदेशक (यो0.वा0–नि0मा0) छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., डंगनिया रायपुर	0771–2574901 99070–85473
12	श्रीमती अलका यादव	सहायक अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-II)	कार्यालय –कार्यपालक निदेशक (यो0.वा0–नि0मा0) छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., डंगनिया रायपुर	0771–2574248 81032–12543
13	श्रीमती स्मिता तिवारी	सहायक अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-III)	कार्यालय –कार्यपालक निदेशक (यो0.वा0–नि0मा0) छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., डंगनिया रायपुर	0771–2574248 91318–68079
14	श्री राम नारायण पटेल	सहायक अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-IV)	पूँजीगत कार्यों का प्राक्कलन, ग्रान्ट, DPR/PFC/REC & Monthly Return से संबंधित कार्य।	0771–2574234 79990–57510

10.
मासिक परिलक्षियां एवं सुविधाएं

(क) अधिकारी

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	मासिक परिलक्षियां			सुविधाएं
			सकल वेतन	आयकर कटौती	कुल आय प्रीविजनल	
1	2	3	4			5
1	श्री राजेश कुमार शुक्ला	कार्यपालक निदेशक	376,300.00	113,000.00	263,300.00	50% की बिजली युनिट खपत में।
2	श्री डॉ के० दवे	अति० मुख्य अभियंता	383,100.00	102,500.00	280,600.00	50% की बिजली युनिट खपत में।
3	श्रीमति कल्यना घाटे	अति० मुख्य अभियंता	383,100.00	150,000.00	233,100.00	50% की बिजली युनिट खपत में।
4	श्री विजय गुलाब इक्का	अधीक्षण अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-I)	198,058.00	55,200.00	142,858.00	50% की बिजली युनिट खपत में।
5	श्रीमती अरुणा दिव्या कुर्जूर	अधीक्षण अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-II)	204,250.00	39,500.00	164,750.00	
6	श्री अजय कुमार चौकसे	कार्यपालन अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले- I)	159,770.00	34,500.00	125,270.00	50% की बिजली युनिट खपत में।
7	श्री सौ० के० एस० ठाकुर	कार्यपालन अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-II)	169,090.00	27,300.00	141,790.00	50% की बिजली युनिट खपत में।
8	श्रीमति नेहा देश्य	कार्यपालन अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-III)	169,090.00	32,000.00	137,090.00	50% की बिजली युनिट खपत में।
9	श्री मनोज वर्मा	कार्यपालन अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-IV)	198,262.00	43,600.00	154,662.00	50% की बिजली युनिट खपत में।
10	श्री ललित कुमार देवांगन	कार्यपालन अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-V)	264,410.00	70,000.00	194,410.00	50% की बिजली युनिट खपत में।
11	श्रीमती नलिनी द्विवेदी	सहायक अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-I)	150,970.00	28,000.00	122,970.00	50% की बिजली युनिट खपत में।
12	श्रीमती अलका यादव	सहायक अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-II)	156,192.00	21,500.00	134,692.00	
13	श्रीमती स्मिता तिवारी	सहायक अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-III)	155,802.00	53,400.00	102,402.00	50% की बिजली युनिट खपत में।

14	श्री राम नारायण पटेल	सहायक अभियंता (योजना, वाणिज्य एवं नियामक मामले-IV)	151,517.00	23,200.00	128,317.00	-
----	----------------------	--	------------	-----------	------------	---

(ख) कर्मचारी

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मासिक परिलब्धियां			सुविधाएं
			सकल वेतन	आयकर कटौती	कुल आय प्रोविजनल	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री जय रामाकृष्णा	निज सहायक	241,352.00	56,000.00	185,352.00	50% फी बिजली युनिट खपत में।
2	श्री आकाश तिवारी	कार्यालय सहायक श्रेणी तीन	52,825.00	0	52,825.00	50% फी बिजली युनिट खपत में।
3	आशा साहू	डाटा एन्ड्री ऑपरेटर	23,001.00	8,000.00	15,001.00	50% फी बिजली युनिट खपत में।
4	श्रीमती नीतू साहू	भृत्य	49,830.00	0	49,830.00	50% फी बिजली युनिट खपत में।
5	शीतल कौशले	भृत्य	22,994.00	0	22,994.00	50% फी बिजली युनिट खपत में।

बजट आबंटन एवं व्यय पत्रक

क्र.	बजट मद	कार्य का नाम	वर्ष	बजट			व्यय
1	2	3	4	5			6
1	अति उच्चदाब पारेषण लाईनों एवं उपकेन्द्रों के कार्य हेतु।	कार्यों की सूची परिशिष्ट—। में संपूर्ण विवरण के साथ दर्शाई गई है।	2022–23 (i) पूंजीगत कार्य (ii) एएण्डजी (iii) मरम्मत एवं रखरखाव	पारेषण कंपनी (₹० करोड़ में)	राज्य	केन्द्र	वर्ष 2022–23 के दौरान पारेषण कार्यों पर व्यय
				807.69	निरंक	निरंक	
				36.98	निरंक	निरंक	
				57.20	निरंक	निरंक	

12
कार्यक्रमों एवं हितग्राहियों की जानकारी

- (अ) कार्यक्रमों की सूची (इलेक्ट्रानिक फार्म में)
- (ब) हितग्राहियों के चयन का मापदण्ड
 (परिपत्र का मूल पाठ – इलेक्ट्रानिक फार्म में)
- (स) विस्तृत जानकारी

सरल क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	प्रशासनिक विभाग	वर्ष	आबंटन राशि	हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
—लागू नहीं —					

13

हितग्राहियों की सूची एवं सुविधाओं की प्रकृति

सरल क्रमांक	सुविधाओं की प्रकृति	नाम	पता	वर्ष	सहायता का प्रकार	सुविधा की अनुमानित कीमत
1	2	3	4	5	6	7

—लागू नहीं —

कार्यालय में उपलब्ध जानकारी (आयटम 6 से सम्बद्ध)

सरल क्र.	श्रेणी	हार्ड कॉफी	इलेक्ट्रॉनिक फार्म
1	कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका (अधिकारी वर्ग को छोड़कर)	पुस्तिका	निरंक
2	अवकाश अभिलेख / उपस्थिति	पुस्तिका	निरंक
3	यात्रा भता / अग्रिम	रजिस्टर	निरंक
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	रजिस्टर	निरंक
5	वर्दी का आबंटन	रजिस्टर	निरंक
6	न्यायालयीन प्रकरण	प्रकरण फाईल	निरंक
7	कैश बुक	रजिस्टर	निरंक
8	बिल रजिस्टर	रजिस्टर	निरंक
9	संपत्ति रजिस्टर	रजिस्टर	निरंक
10	विभिन्न कार्यालयीन	रजिस्टर	निरंक
11	आवक जावक पंजी	रजिस्टर	निरंक
12	सूचना का अधिकार	रजिस्टर	निरंक
13	जी.पी.एफ. अग्रिम	रजिस्टर	निरंक
14	वार्षिक वेतन वृद्धि	रजिस्टर	निरंक
15	अखिल भारतीय यात्रा सुविधा / नगदीकरण	रजिस्टर	निरंक
16	उच्च शिक्षा अनुमति	रजिस्टर	निरंक
17	इस्टीमेट फाईल	फाईल	निरंक
18	बजट फाईल (स्थापना)	फाईल	निरंक
19	वार्षिक ट्रांसमिशन लाइसेन्स फीस	फाईल	निरंक
20	कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान	मैनुअल	निरंक
21	टैरिफ पिटिशन	फाईल	निरंक
22	आर.टी.यू.	रजिस्टर	निरंक
23	प्राक्कलन	रजिस्टर	निरंक
24	SoR	पुस्तिका	उपलब्ध

आम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सुविधायें
(पुस्तकालय, पब्लिक काउण्टर आदि)

17

(कोई अन्य जानकारी)
(अवकाश दिवसों को छोड़कर)

(आम नागरिक की सुविधाओं से संबंधित)
धारा 4.1 (इ) (गअ) के अंतर्गत

निरंक

लोक सूचना अधिकारी का पद / कार्य स्थल से संबंधित जानकारी

1) सहायक लोक सूचना अधिकारी

नाम	—	श्रीमति स्मिता तिवारी
पदनाम	—	सहायक अभियंता
दूरभाष क्रमांक	—	0771—2574248
ई—मेल पता	—	cecnra.csptcl@cspc.co.in
कार्यस्थल पता	—	कार्यालय कार्यपालक निदेशक(यो.,वा. एवं नि. मा.) छोगोस्टेपॉट्रांस०क०लिमि०, रायपुर

2) जन सूचना अधिकारी

नाम	—	श्री चौधरी करुण शंकर ठाकुर
पदनाम	—	कार्यपालन अभियंता
दूरभाष क्रमांक	—	0771—2574833
ई—मेल पता	—	cecnra.csptcl@cspc.co.in
कार्यस्थल पता	—	कार्यालय कार्यपालक निदेशक(यो.,वा. एवं नि. मा.) छोगोस्टेपॉट्रांस०क०लिमि०, रायपुर

3) अपीलीय अधिकारी

नाम	—	श्रीमति अरुणा दिव्या कुजूर
पदनाम	—	अधीक्षण अभियंता
दूरभाष क्रमांक	—	0771—2574696
ई—मेल पता	—	cecnra.csptcl@cspc.co.in
कार्यस्थल पता	—	कार्यालय कार्यपालक निदेशक(यो.,वा. एवं नि. मा.) छोगोस्टेपॉट्रांस०क०लिमि०, रायपुर

आम नागरिक से मिलने का समय — दोपहर 3 से 4 बजे तक